

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 2012—कार्तिक 11, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं